



THE ASIAN SCHOOL, DEHRADUN

(SESSION :2022-23)

WINTER HOLIDAY HOMEWORK WORKSHEET-1

CLASS:VII

SUBJECT: HINDI

1. Attempt the worksheet in your subject homework notebook.
2. The worksheet is based on the topics which have been taught previously.
3. The worksheet is meant for practice and recapitulation and shall be discussed by the subject teacher once the classes resume.

प्र.1 निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए :-

गद्यांश-१

स्वतंत्र भारत का सम्पूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के कंधे पर है। कारण आज जो विद्यार्थी हैं, वे ही कल के भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति एवं उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतएव विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आँखों के सामने रखना चाहिए जिससे उनके जीवन से राष्ट्र को कुछ शक्ति प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं।

(क) किसी देश की उन्नति और उत्थान किन पर निर्भर करता है तथा क्यों?

(ख) राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है?

(ग) किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र एवं समाज के लिए बोझ बन जाते हैं?

(घ) उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए।

(ङ) भारत को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता कब मिली ?

गद्यांश-२

परोपकार से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। वेदों और उपनिषदों में भी यही कहा गया है। भारतीय संस्कृति परोपकार के लिए जानी जाती है। महर्षि दधीचि ने वृत्रासुर से रक्षा करने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियाँ दान में दे दी थीं। राजा शिवि ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना माँस काटकर खिलाया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीयों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। दूसरों के कष्टों को अपना कर देखिए। कष्ट में किसी का सहारा बनकर देखिए। दुःखी व्यक्ति के दुःख दूर हो जाने पर, उसके मुख पर आई मुस्कान के कारण यदि आप हैं तो आप से महान और कोई नहीं है।

(क) वेदों और उपनिषदों में क्या कहा गया है?

(ख) दूसरों के लिए किस-किसने बलिदान दिए?

(ग) महान कौन है?

(घ) गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए।

(ङ) परोपकार का संधि-विच्छेद कीजिये तथा संधि का नाम भी बताइये ।

प्रश्न 2. निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखिए --

(क) पुलिस अधिकारी को साइकिल की चोरी के सम्बन्ध में रिपोर्ट करते हुए पत्र लिखिए ।

(ख) अपने छोटे भाई को मन लगाकर अध्ययन करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए ।